



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1267]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2005/अग्रहायण 15, 1927

No. 1267]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2005/AGRAHAYANA 15, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2005

**का.आ. 1718(अ).—** केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1383(अ) तारीख 17 दिसम्बर, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii), 17 दिसम्बर, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के 426.661 कि.मी. (बंगलौर-सेलम-मदुरई सेक्शन) से 41.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखण्ड का, जिसमें बाईपास भी शामिल है, निर्माण (चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार “डेली थॉथी” और “दि हिन्दू” दोनों में तारीख 21 फरवरी, 2005 को प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त भूमि में हितबद्ध 14 व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुए थे जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखण्ड के अंतर्गत अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

ज़ा : तिरुनेलवेली

तालुक : राधापुरम

म संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	कारुंगलम	514/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	150	राज्य सरकार
		514/3बी	शुष्क	निजी	300	शिवारामा कृष्णन गुरुगुला आसीरामम
		541/2ए1	शुष्क	निजी	300	1) वाई.एस. सूसई रथिनम, (2) वाई.एस. एण्टोनी (3) वाई.एस.थॉमस (4) वाई.एस. राजेन्द्रन
		541/3बी1	शुष्क	निजी	400	राजागोपालन, पुत्र आरुमुगा कोनर
		542/1	शुष्क	निजी	550	आरुमुगा कोनर, पुत्र मसाना कोनर
		542/2ए	शुष्क	निजी	1050	(1) आरुमुगा कोनर, पुत्र मसाना कोनर (2) लेविगीपुरम प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक
		545/1	शुष्क	निजी	400	(1) सुदालैयान्डी थेवर, पुत्र सुबैया थेवर (2) मुरुगनाथम, पुत्र परमशिव थेवर
		545/2ए	शुष्क	निजी	1500	सुदालैयान्डी थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		546/1	शुष्क	निजी	200	(1) सुदालैयान्डी थेवर, पुत्र सुबैया थेवर (2) वीरामनी पुत्र बूथालिंगा चेदिटयार
		546/2ए	शुष्क	निजी	500	सुदालैयान्डी थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		546/3ए	शुष्क	निजी	1800	मनाकावला पेरुमल, पुत्र शंकरालिंगम
		547/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	450	राज्य सरकार
		547/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	300	राज्य सरकार
		547/2सी2	पोरमबोके	राज्य सरकार	250	राज्य सरकार
		547/2ए1	शुष्क	निजी	550	(1) भगवती थेवर, पुत्र राक्कीसामुथु थेवर, (2) राक्कीसामुथु थेवर पुत्र शिवारामा थेवर (3) इसाक्किमुथु थेवर, पुत्र राक्कीसामुथु थेवर (4) मुरुगनाथम, पुत्र राक्कीसामुथु थेवर

1	2	3	4	5	6	7
		547/2सी1	शुष्क	निजी	100	(1) भगवती थेवर, पुत्र रावकीसामुथु थेवर, (2) रावकीसामुथु थेवर, पुत्र शिवारामा थेवर, (3) इसाकिमुथु थेवर, पुत्र रावकीसामुथु थेवर, (4) मुरुगनाथम, पुत्र रावकीसामुथु थेवर
		547/5	शुष्क	निजी	600	अरुमुगा थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		547/6	शुष्क	निजी	200	शिवारामा थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		547/7	शुष्क	निजी	100	(1) इसाकिमुथु थेवर, रावकीसामुथु थेवर, (2) रावकीसामुथु थेवर, पुत्र शिवारामा थेवर
		548/2ए3ए	शुष्क	निजी	500	(1) अरुमुगा थेवर, पुत्र सुबैया थेवर, (2) नारायणा थेवर, पुत्र भगवती थेवर, (3) भगवती थेवर, पुत्र रावकीसामुथु थेवर, (4) रावकीसामुथु, पुत्र शिवारामा थेवर, (5) शिवारामा थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		548/2ए3 बी	पोरमबोके	राज्य सरकार	1450	राज्य सरकार
		548/2बी1	शुष्क	निजी	50	(1) कल्याणी थेवर, पुत्र रामलिगा थेवर, (2) अनंता थेवर, पुत्र भगवती थेवर, (3) दसेलकर विन्डर फाइनैस लि० (4) पथिजा पार्किंग्स एवं ऑटो मैनुफैक्चरिंग लि०
		548/15	शुष्क	निजी	1250	(1) कल्याणी थेवर, पुत्र रामलिगा थेवर, (2) अनंता थेवर, पुत्र भगवती थेवर, (3) दसेलकर विन्डर फाइनैस लि० (4) पथिजा पार्किंग्स एवं ऑटो मैनुफैक्चरिंग लि०
		548/2बी3बी	शुष्क	निजी	850	(1) अनंता थेवर, पुत्र भगवती थेवर, (2) दसेलकर विन्डर फाइनैस लि०
		548/9ए	शुष्क	निजी	100	(1) अरुमुगा थेवर, पुत्र सुबैया थेवर, (2) नारायणा थेवर, पुत्र भगवती थेवर, (3) भगवती थेवर, पुत्र रावकीसामुथु थेवर, (4) रावकीसामुथु, पुत्र शिवारामा थेवर, (5) शिवारामा थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		548/10ए	शुष्क	निजी	300	भगवती थेवर, पुत्र रावकीसामुथु थेवर
		548/11ए	शुष्क	निजी	300	मुरुगानाथम, पुत्र रावकीसामुथु थेवर

1	2	3	4	5	6	7
		548/12ए	शुष्क	निजी	300	शिवाराम थेवर, सुबैया थेवर
		548/13ए	शुष्क	निजी	450	नारायणा थेवर, पुत्र भगवती थेवर
		548/14ए	शुष्क	निजी	1200	अरुमुगा थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		550/1सी1	शुष्क	निजी	350	(1) अनंत थेवर, पुत्र भगवती थेवर (2) दसेलकर विन्डर फाइनैस लि० (3) पथिजा पार्किंग्स एवं ऑटो मैनुफैक्चरिंग लि०
		551/1ए1ए	शुष्क	निजी	1550	इस्साकिमुथु थेवर, पुत्र सुदालैमुथु थेवर
		551/1ए2	शुष्क	निजी	650	चिन्नारानी, पत्नी नवामनी
		551/1ए3ए	शुष्क	निजी	1150	चिन्नारानी, पत्नी नवामनी
		551/1ए4	शुष्क	निजी	1950	(1) पलावेसा थेवर, पुत्र लक्ष्मणा थेवर (2) चिन्नारानी, (3) एलेक्स जोसेफ गबरीअल
		551/1ए5बी	शुष्क	निजी	2000	परमसिवन, पुत्र रंगनाथ थेवर
		551/1ए6 बी	शुष्क	निजी	350	चिन्नारानी, पत्नी नवामनी
		551/1ए7	शुष्क	निजी	650	चिन्नारानी, पत्नी नवामनी
		551/1ए8ए	शुष्क	निजी	50	(1) इस्साकिमुथु थेवर, पुत्र सुदालैमुथु थेवर (2) शंकर थेवर, पुत्र इस्साकिमुथु थेवर, (3) मुथुसामालिगम, पुत्र लक्ष्मणा थेवर (4) परमाशिवम, पुत्र रंगनाथा थेवर
		551/1ए10 बी	शुष्क	निजी	500	पलावेसा थेवर, पुत्र लक्ष्मणा थेवर (1) चिन्नारानी (2), एलेक्स जोसेफ गबरीअल (3)
		551/2सी2	शुष्क	निजी	850	(1) इस्साकिमुथु, पुत्र शंकर थेवर (2) शिवानु पुत्र शंकर थेवर (3) मुरुगन पुत्र शंकर थेवर (4) लक्ष्मणन, पुत्र शंकर थेवर (5) चिन्नारानी, पत्नी नावामनी
		551/2 डी	शुष्क	निजी	1500	परमसिवन, पुत्र रंगनाथा थेवर
		551/2डी 2	शुष्क	निजी	600	ऑरो फूड सर्विस प्राइवेट लि०, पॉन्डिचेरी
		551/1बी	पोरमबोके	राज्य सरकार	400	राज्य सरकार
		563/6	पोरमबोके	राज्य सरकार	1250	राज्य सरकार
		563/5	शुष्क	निजी	750	परमसिवन, पुत्र रंगनाथा थेवर
		563/1बी 2बी	शुष्क	निजी	500	सररवती, पत्नी भगवतीअप्पन
		563/1बी 3	शुष्क	निजी	500	गणपति थेवर, पुत्र सुबैया थेवर

1	2	3	4	5	6	7
		563/1बी 4ए	शुष्क	निजी	200	सरस्वती, पत्नी भगवतीअप्पन
		563/2ए1	शुष्क	निजी	300	गणपति थेवर पुत्र सुबैया थेवर
		563/2ए2	शुष्क	निजी	600	सरस्वती, पत्नी भगवतीअप्पन
		563/2ए3ए	शुष्क	निजी	250	सुदालैयन्डी थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		563/3	शुष्क	निजी	500	ऑरो फूड प्राइवेट लि0, पॉडिचेरी
		563/4ए	शुष्क	निजी	100	ऑरो फूड प्राइवेट लि0, पॉडिचेरी
		565/2बी	शुष्क	निजी	350	सरस्वती, पत्नी भगवतीअप्पन
		565/3बी	शुष्क	निजी	100	(1) मुथुकृष्णन, पुत्र मुथैया थेवर (2) पार्वतीनाथन, पुत्र मुथैया थेवर (3) करुणानिधि, पुत्र मुथैया थेवर
		565/4ए	शुष्क	निजी	600	गणपति थेवर पुत्र सुबैया थेवर
		567/1ए1	शुष्क	निजी	350	गणपति थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		567/1बी1	शुष्क	निजी	1700	सरस्वती, पत्नी भगवतीअप्पन
		567/1सी	शुष्क	निजी	850	सुदालैयान्डी थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
		567/1ई2	शुष्क	निजी	150	सरस्वती, पत्नी भगवतीअप्पन
		567/2बी	शुष्क	निजी	50	(1) सुदालैयन्डी थेवर, पुत्र सुबैया थेवर (2) गणपति थेवर, पुत्र सुबैया थेवर (3) मुथुकृष्णन, पुत्र मुथैया थेवर (4) पार्वतीनाथन, पुत्र मुथैया थेवर (5) करुणानिधि, पुत्र मुथैया थेवर (6) सरस्वती, पत्नी भगवतीअप्पन (7) पार्वती पुत्र इस्साकिमुथु थेवर (8) भगवती थेवर पुत्र रामासामी थेवर (9) शंकरालिंगा थेवर पुत्र पूवानैथा पेरुमल थेवर (10) आनंदन पुत्र पूवानैथा पेरुमल थेवर (11) मुरुगन पुत्र पूवानैथा पेरुमल थेवर (12) भगवती थेवर शंकरालिंगा थेवर (13) लक्ष्मणा थेवर पुत्र सप्पानी थेवर

2	3	4	5	6	7
	568/1ए1	शुष्क	निजी	50	(1) शंकरालिंगा थेवर पत्नी पूवनानैथा पेरुमल थेवर (2) मुरुगन, पत्नी पूवनानैथा पेरुमल थेवर (3) आनंदन पत्नी पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	568/1बी1	शुष्क	निजी	400	भगवती थेवर, पुत्र शंकरालिंगा थेवर
	568/1सी1	शुष्क	निजी	600	(1) शंकरालिंगा थेवर, पत्नी पूवनानैथा पेरुमल थेवर (2) मुरुगन, पत्नी पूवनानैथा पेरुमल थेवर (3) आनंदन पत्नी पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	568/1डी 1	शुष्क	निजी	2000	भगवती थेवर, पुत्र शंकरालिंगा थेवर
	568/2ए	शुष्क	निजी	25	(1) भगवती थेवर, पुत्र रामासामी थेवर (2) मुथैया थेवर, पुत्र सुबैया थेवर (3) सुदालेयण्डी थेवर, पुत्र सुबैया थेवर (4) गणपति थेवर, पुत्र सुबैया थेवर
	568/3बी	शुष्क	निजी	3100	(1) भगवती थेवर, पुत्र रामासामी थेवर (2) अरविंद 'ए' ट्रेडर्स प्रा0 लि0
	569/1बी 2	शुष्क	निजी	2800	अरविंद 'ए' ट्रेडर्स प्रा0 लि0
	569/1सी1बी	शुष्क	निजी	850	भगवती थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	569/1सी2ए	शुष्क	निजी	900	रामचन्द्र थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	571/1ए2	शुष्क	निजी	700	भगवती थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	571/2डी 2	शुष्क	निजी	650	भगवती थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	571/2ई	शुष्क	निजी	900	इसाकिमुथु थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	571/2जी2	शुष्क	निजी	2200	बालसुब्रमण्यन, पुत्र पकिया थेवर
	571/2एच1	शुष्क	निजी	400	वन्नियाँ थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	571/27	पोरमबोके	राज्य सरकार	400	राज्य सरकार
	571/28	पोरमबोके	राज्य सरकार	250	राज्य सरकार
	571/5बी	शुष्क	निजी	1000	इसाकिमुथु थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	571/6बी	शुष्क	निजी	1050	वन्नियाँ थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
	571/7ए	शुष्क	निजी	650	(1) रामचन्द्र थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर (2) वन्नै थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर (3) इसाकिमुथु थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर (4) भगवती थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर (5) दुरैपन्डी थेवर, पुत्र इसाकिमुथु थेवर

1	2	3	4	5	6	7
		571/8ए	शुष्क	निजी	450	रामचन्द्र थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
		571/9ए	शुष्क	निजी	400	वन्नियॉ थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
		571/10ए	शुष्क	निजी	450	इसाक्किमुथु थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
		571/11ए	शुष्क	निजी	500	भगवती थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
		571/12ए	शुष्क	निजी	1700	दुरेपन्डी थेवर, पुत्र शिवानानैथा पेरुमल थेवर
		571/13	शुष्क	निजी	650	राक्किसामुथु थेवर, पुत्र शिवानानैथा पेरुमल थेवर
		571/25बी	शुष्क	निजी	500	भगवती थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
		571/26	शुष्क	निजी	100	इसिककामुथु थेवर, पुत्र पूवनानैथा पेरुमल थेवर
		743/1बी	शुष्क	निजी	300	उचिपुली, पुत्र गुरुसामी नादर
		743/2बी	शुष्क	निजी	1850	रेव. फादर बेनेडिक्ट (1), डालमिया सीमेन्ट लि0 (2) इसाक्किमुथु (3)
		743/3बी	शुष्क	निजी	750	शनमुगा थेवर, पुत्र पेरियासामी थेवर
		743/4बी	शुष्क	निजी	1250	पथराकलैम्मल, पुत्र वीरामनी थेवर (1), टी. करुंगुलम थेवर प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक (2)
		744/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	250	राज्य सरकार
		745/1ई2	शुष्क	निजी	200	थानुष्कोडी थेवर, पुत्र शिवानानैथा पेरुमल थेवर
		745/1एफ2	शुष्क	निजी	400	पथराकलैम्मल, पत्नी वीरामनी थेवर(1), टी. करुंगुलम प्राथमिक कृषि सहकारिता बैंक(2)
		745/1जी2	शुष्क	निजी	1300	शिवानानैथा पेरुमल थेवर, पुत्र पत्नी अरुणाचला थेवर
		745/1के2	शुष्क	निजी	2000	लक्ष्मण थेवर, पुत्र इसाक्किमुथु थेवर (1), पलावेसा थेवर, पुत्र लक्ष्मण थेवर (2), एलेक्स जोसेफ गाबरिअल (3), सांथि एलेक्स (4), परमशिव थेवर, पुत्र रंगासामी थेवर(5)
		745/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	1100	राज्य सरकार
		746/3बी	शुष्क	निजी	1350	सांथि एलेक्स, पत्नी एलेक्स जोसेफ गाबरिअल
		747/1एफ1 बी	शुष्क	निजी	1550	शंकर & एसोसिएट्स, कोयम्बटूर
		747/1एफ 2बी	शुष्क	निजी	300	सेलिन मार्क, पुत्र शांति विआगाप्पन
		747/1जी 2	शुष्क	निजी	250	सेलिन मार्क, पुत्र शांति विआगाप्पन
		751/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	850	राज्य सरकार

1	2	3	4	5	6	7
		752/2बी	शुष्क	निजी	100	वन्ने पेरुमल, पुत्र सुदालैमुथु कोनर(1), इसात्तिकमुथु, पुत्र सुबैया कोनर (2), अरुमुगम, पुत्र सुबैया कोनर (3), सुदालैमुथु पुत्र सुबैया कोनर (4) सुदालैमुथु (5), कानिया पेरुमल कोनर (6) सोरनाथाम्मल (7)
		752/13बी	शुष्क	निजी	600	नीलकण्ठा कोनर, पुत्र वन्नेया पेरुमल कोनर
		752/14बी	शुष्क	निजी	500	शिया सुब्रमण्य कोनर, पुत्र वन्नेया पेरुमल कोनर
		752/15बी	शुष्क	निजी	500	भगवती कोनर, पुत्र वन्नेया पेरुमल कोनर
		752/16बी	शुष्क	निजी	500	शन्मुगासुन्दरम, पुत्र वन्नेया पेरुमल कोनर
		752/17बी	शुष्क	निजी	600	बूथालिगम कोनर, पुत्र वन्नेया पेरुमल कोनर
		752/18बी	शुष्क	निजी	600	अरुमुगा कोनर, पुत्र वन्नेया पेरुमल कोनर
		752/19बी	शुष्क	निजी	700	सुदालैकान्नु कोनर, पुत्र वन्नेया पेरुमल कोनर
		753/5बी	शुष्क	निजी	500	शंकराम्मल पुत्री रमैया कोनर (1), भगवती कोनर पुत्र रमैया कोनर (2) मत्ताना कोनर (3)
		753/8बी	शुष्क	निजी	50	शमकृष्णन, पुत्र गणपति कोनर
		753/9बी	शुष्क	निजी	600	नागराजन, पुत्र गणपति कोनर
		753/10	शुष्क	निजी	100	नागराजन, पुत्र गणपति कोनर
		754/2एफ 2	शुष्क	निजी	100	शंकराम्मल पुत्री रमैया कोनर (1), भगवती कोनर शंकराम्मल (2) मत्ताना कोनर(3)
		754/2जी2	शुष्क	निजी	50	(1)गणपति कोनर पुत्र भगवती कोनर (2) शंकराम्मल, पुत्री रमैया कोनर
		754/2एच2	शुष्क	निजी	400	परमार्थलिगा कोनर, पुत्र नाला कानू कोनर
		754/2आई 2	शुष्क	निजी	500	(1)शन्मुगासमुद्रम, पुत्र सुबैया कोनर (2) नीलकन्दन, पुत्र सुबैया कोनर
		754/2जे 2	शुष्क	निजी	550	अरुमुगा कोनर, पुत्र नीलकन्दन कोनर
		754/2एल 2	शुष्क	निजी	700	(1)शन्मुगासमुद्रम, पुत्र सुबैया कोनर (2) नीलकन्दन, पुत्र सुबैया कोनर



1	2	3	4	5	6	7
		755/1ए1बी	शुष्क	निजी	100	नाम्बिकै फाउण्डेशन पालावूर
		755/1ए2बी	शुष्क	निजी	750	शमुगासमुद्रम, पुत्र चोकालिंगा कोनर
		755/6	शुष्क	निजी	500	भगवती कोनर पुत्र चोकालिंगा कोनर
		755/1ए3बी	शुष्क	निजी	400	येशुथिनम, पुत्र थिराविअम
		755/2सी2बी	शुष्क	निजी	1650	डॉ. सेल्वाराज पुत्र पोन्नुसामी (1), सेल्वम चिकन प्राइवेट लि0 (2) पी.एस.पी. फार्म्स प्राइवेट लि0, नमक्कल (3)
		755/3सी2	शुष्क	निजी	500	सुबैया कोनर पुत्र सुदालैमुथु कोनर (1) सुबैया (2) अशोक कुमार (3) मणि (4) चन्द्रन (5)
		755/4सी2	शुष्क	निजी	200	सुबैया कोनर पुत्र सुदालैमुथु कोनर (1) सुबैया (2) अशोक कुमार (3) मणि (4) चन्द्रन (5)
		755/5बी	शुष्क	निजी	100	सुबैया कोनर पुत्र सुदालैमुथु कोनर (1) इसाक्किमुथु पुत्र सुदालैमुथु कोनर (2) राजगोपाल, पुत्र सुदालैमुथु कोनर (3) गणपति, पुत्र सुदालैमुथु कोनर (4) गणेश कुमारी, पुत्र राजगोपाल (5) पेरुमल (6) समुंगम नित्यानाथम (7) सुबैया कोनर (8) अशोक कुमार (9) मणि (10) चन्द्रन (11)
		877/7	पोरमबोके	राज्य सरकार	727	राज्य सरकार
		877/8	पोरमबोके	राज्य सरकार	18	राज्य सरकार
		878/23	पोरमबोके	राज्य सरकार	160	राज्य सरकार

[ फा. सं. भाराप्र/तक./एलए/एमके/1/2003 ]

प्रभाकर, उप सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2005

S.O. 1718(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, number S.O.1383 (E), dated the 17<sup>th</sup> December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii),

dated the 17<sup>th</sup> December, 2004 and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to the said notification for the public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No.7, including the bypass, in the stretch of land from km 120.000 to km 224.000 (Madurai – Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification was published in the "Daily Thanthi" and "The Hindu", both dated the 21<sup>st</sup> February, 2005;

And whereas 14 objections have been received from the persons interested in the land and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report in respect of Karungulam village of Radhapuram Taluk, Tirunelveli District in the state of Tamil Nadu to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto, shall vest absolutely to the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief Description of land, with or without structure, to be acquired falling within the stretch of and in National Highways No.7 from Km 120.000 to 224.000 Km (Madurai to Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu.

**District : Tirunelveli**

**Taluk : Radhapuram**

Serial Number	Name of the Village	Survey Number	Nature of Land	Type of Land	Area of Land in Square Metres	Name of the Owners
1	2	3	4	5	6	7
1	Karungulam	514/4	Poramboke	State Government	150	State Government
		514/3B	Dry	Private	300	Sivarama Krishnan Gurugula Asiramam, Superintendent
		541/2A1	Dry	Private	300	1) Y.S. Soosai Rathinam, (2) Y.S. Antony (3) Y.S. Thomas, (4) Y.S. Rajendran

1	2	3	4	5	6	7
		541/3B1	Dry	Private	400	Rajagopalan, S/o. Arumuga Konar
		542/1	Dry	Private	550	Arumuga Konar, S/o. Masana Konar,
		542/2A	Dry	Private	1050	(1) Arumuga Konar, S/o. Masana Konar, (2) Levingipuram Primary Agricultural Co-operative Bank
		545/1	Dry	Private	400	(1) Sudalaiyandi Thevar, S/o. Subbiah Thevar, (2) Muruganantham, S/o. Paramasiva Thevar
		545/2A	Dry	Private	1500	Sudalaiyandi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		546/1	Dry	Private	200	(1) Sudalaiyandi Thevar, S/o. Subbiah Thevar, (2) Veeramani, S/o. Boothalinga Chettiyar
		546/2A	Dry	Private	500	Sudalaiyandi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		546/3A	Dry	Private	1800	Manakavala Perumal, S/o. Sankaralingam
		547/3	Poramboke	State Government	450	State Government
		547/4	Poramboke	State Government	300	State Government
		547/2C2	Poramboke	State Government	250	State Government
		547/2A1	Dry	Private	550	(1) Bagavathi Thevar, S/o. Rakkisamuthu Thevar, (2) Rakkisamuthu, S/o. Sivarama Thevar, (3) Esakkimuthu Thevar, S/o. Rakkisamuthu Thevar, (4) Muruganantham, S/o. Rakkisamuthu Thevar.
		547/2C1	Dry	Private	100	(1) Bagavathi Thevar, S/o. Rakkisamuthu Thevar, (2) Rakkisamuthu, S/o. Sivarama Thevar, (3) Esakkimuthu Thevar, S/o. Rakkisamuthu Thevar, (4) Muruganantham, S/o. Rakkisamuthu Thevar.
		547/5	Dry	Private	600	Arumuga Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		547/6	Dry	Private	200	Sivarama Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		547/7	Dry	Private	100	(1) Esakkimuthu Thevar, S/o. Rakkisamuthu Thevar, (2) Rakkisamuthu Thevar, S/o. Sivarama Thevar.
		548/2A3A	Dry	Private	500	(1) Arumuga Thevar, S/o. Subbiah Thevar, (2) Narayana Thevar, S/o. Bagavathi Thevar,

1	2	3	4	5	6	7
						(3) Bagavathi Thevar, S/o. Rakkisamuthu Thevar (4) Rakkisamuthu, S/o. Sivarama Thevar, (5) Sivarama Thevar, S/o. Subbiah Thevar.
		548/2A3B	Poramboke	State Government	1450	State Government
		548/2B1	Dry	Private	50	(1) Kalyani Thevar, S/o. Ramalinga Thevar, (2) Anantha Thevar, S/o. Bagavathi Thevar, (3) Daslekar Windar Finance Ltd. (4) Pathija Parkings & Auto Manufacturing Ltd.
		548/15	Dry	Private	1250	(1) Kalyani Thevar, S/o. Ramalinga Thevar, (2) Anantha Thevar, S/o. Bagavathi Thevar, (3) Daslekar Windar Finance Ltd. (4) Pathija Parkings & Auto Manufacturing Ltd.
		548/2B3B	Dry	Private	850	(1) Anantha Thevar, S/o. Bagavathi Thevar, (2) Daslekar Windar Finance Ltd.
		548/9A	Dry	Private	100	(1) Arumuga Thevar, S/o. Subbiah Thevar, (2) Narayana Thevar, S/o. Bagavathi Thevar, (3) Bagavathi Thevar, S/o. Rakkisamuthu Thevar (4) Rakkisamuthu, S/o. Sivarama Thevar, (5) Sivarama Thevar, S/o. Subbiah Thevar.
		548/10A	Dry	Private	300	Bagavathi Thevar, S/o. Rakkisamuthu Thevar
		548/11A	Dry	Private	300	Muruganatham, S/o. Rakkisamuthu Thevar
		548/12A	Dry	Private	300	Sivarama Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		548/13A	Dry	Private	450	Narayana Thevar, S/o. Bagavathi Thevar
		548/14A	Dry	Private	1200	Arumuga Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		550/1C1	Dry	Private	350	(1) Anantha Thevar, S/o. Bagavathi Thevar, (2) Daslekar Windar Finance Ltd. (3) Pathija Parkings & Auto Manufacturing Ltd.
		551/1A1A	Dry	Private	1550	Esakkimuthu Thevar, S/o. Sudalaimuthu Thevar
		551/1A2	Dry	Private	650	Chinnarani, W/o. Navamani
		551/1A3A	Dry	Private	1150	Chinnarani, W/o. Navamani
		551/1A4	Dry	Private	1950	(1) Palavesa Thevar, S/o. Lakshmana Thevar, (2) Chinnarani, (3) Alex Joseph Gabriel

1	2	3	4	5	6	7
		551/1A5B	Dry	Private	2000	Paramasivan, S/o. Renganatha Thevar
		551/1A6B	Dry	Private	350	Chinnarani, W/o. Navamani
		551/1A7	Dry	Private	650	Chinnarani, W/o. Navamani
		551/1A8A	Dry	Private	50	(1) Esakkimuthu Thevar, S/o. Sudalaimuthu Thevar, (2) Sankara Thevar, S/o. Esakkimuthu Thevar, (3) Muthuramalingam, S/o. Lakshmana Thevar, (4) Paramasivam, S/o. Renganatha Thevar.
		551/1A10B	Dry	Private	500	Palavesa Thevar, S/o. Lakshmana Thevar (1) Chinnarani (2), Alex Joseph Gabriel (3)
		551/2C2	Dry	Private	850	(1) Esakkimuthu, S/o. Sankara Thevar, (2) Sivanu, S/o. Sankara Thevar, (3) Murugan, S/o. Sankara Thevar, (4) Lakshmanan, S/o. Sankara Thevar (5) Chinnarani, W/o. Navamani
		551/2D	Dry	Private	1500	Paramasivan, S/o. Renganatha Thevar
		551/2E2	Dry	Private	600	Auro Food Private Ltd., Pondicheri
		551/1B	Poramboke	State Government	400	State Government
		563/6	Poramboke	State Government	1250	State Government
		563/5	Dry	Private	750	Paramasivan, S/o. Renganatha Thevar
		563/1B2B	Dry	Private	500	Saraswathi, W/o. Bagavathiappan
		563/1B3	Dry	Private	500	Ganapathi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		563/1B4A	Dry	Private	200	Saraswathi, W/o. Bagavathiappan
		563/2A1	Dry	Private	300	Ganapathi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		563/2A2	Dry	Private	600	Saraswathi, W/o. Bagavathiappan
		563/2A3A	Dry	Private	250	Sudalaiyandi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		563/3	Dry	Private	500	Auro food Private Ltd., Pondicheri
		563/4A	Dry	Private	100	Auro food Private Ltd., Pondicheri
		565/2B	Dry	Private	350	Saraswathi, W/o. Bagavathiappan

1	2	3	4	5	6	7
		565/3B	Dry	Private	100	(1) Muthukrishnan, S/o. Muthiah Thevar, (2) Parvathinathan, S/o. Muthiah Thevar, (3) Karunanithi, S/o. Muthiah Thevar.
		565/4A	Dry	Private	600	Ganapathi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		567/1A1	Dry	Private	350	Ganapathi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		567/1B1	Dry	Private	1700	Saraswathi, W/o. Bagavathiappan
		567/1C	Dry	Private	850	Sudalaiyandi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		567/1E2	Dry	Private	150	Saraswathi, W/o. Bagavathiappan
		567/2B	Dry	Private	50	(1)Sudalaiyandi Thevar, S/o. Subbiah Thevar (2) Ganapathi Thevar, S/o. Subbiah Thevar (3) Muthukrishnan, S/o. Muthiah Thevar, (4) Parvathinathan S/o. Muthiah Thevar, (5)Karunanithi, S/o. Muthiah Thevar, (6) Saraswathi, W/o. Bagavathiappan (7) Parvathi S/o. Esakkimuthu Thevar, (8) Bagavathi Thevar, S/o. Ramasamy Thevar, (9) Sankaralinga Thevar, S/o. Poovananaintha Perumal Thevar, (10) Ananthan, S/o. Poovananaintha Perumal Thevar, (11) Murugan, S/o. Poovananaintha Perumal Thevar, (12) Bagavathi Thevar, S/o. Sankaralinga Thevar, (13) Lakshmana Thevar, S/o. Sappani Thevar.
		568/1A1	Dry	Private	50	(1) Sankaralinga Thevar, S/o. Poovananaintha Perumal Thevar, (2) Murugan , S/o. Poovananaintha Perumal Thevar, (3) Ananthan, S/o. Poovananaintha Perumal Thevar
		568/1B1	Dry	Private	400	Bagavathi Thevar, S/o. Sankaralinga Thevar

1	2	3	4	5	6	7
		568/1C1	Dry	Private	600	(1) Sankaralinga Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar, (2) Murugan , S/o. Poovanaintha Perumal Thevar, (3) Ananthan, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		568/1D1	Dry	Private	2000	Bagavathi Thevar, S/o. Sankaralinga Thevar
		568/2A	Dry	Private	25	(1) Bagavathi Thevar, S/o. Ramasamy Thevar (2) Muthiah Thevar, S/o. Subbiah Thevar, (3) Sudalaiyandi Thevar, S/o. Subbiah Thevar (4) Ganapathi Thevar, S/o. Subbiah Thevar
		568/3B	Dry	Private	3100	(1) Bagavathi Thevar, S/o. Ramasamy Thevar (2) Aravind 'A' Traders Pvt. Ltd.
		569/1B2	Dry	Private	2800	Aravind 'A' Traders Pvt. Ltd.
		569/1C1B	Dry	Private	850	Bagavathi Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		569/1C2A	Dry	Private	900	Ramachandra Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/1A2	Dry	Private	700	Bagavathi Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/2D2	Dry	Private	650	Bagavathi Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/2E	Dry	Private	900	Esakkimuthu Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/2G2	Dry	Private	2200	Balasubramanian, S/o. Packia Thevar
		571/2H1	Dry	Private	400	Vannia Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/27	Poramboke	State Government	400	State Government
		571/28	Poramboke	State Government	250	State Government
		571/5B	Dry	Private	1000	Esakkimuthu Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/6B	Dry	Private	1050	Vannia Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/7A	Dry	Private	650	(1) Ramachandra Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar (2) Vannia Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar (3) Esakkimuthu Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar (4) Bagavathi Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar (5) Duraipandi Thevar, S/o. Esakkimuthu Thevar
		571/8A	Dry	Private	450	Ramachandra Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar

1	2	3	4	5	6	7
		571/9A	Dry	Private	400	Vannia Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/10A	Dry	Private	450	Esakkimuthu Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/11A	Dry	Private	500	Bagavathi Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/12A	Dry	Private	1700	Duraipandi Thevar, S/o. Sivananaintha Perumal Thevar
		571/13	Dry	Private	650	Rakkisamuthu Thevar, S/o. Sivananaintha Perumal Thevar
		571/25B	Dry	Private	500	Bagavathi Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		571/26	Dry	Private	100	Esakkimuthu Thevar, S/o. Poovanaintha Perumal Thevar
		743/1B	Dry	Private	300	Uchipuli, S/o. Gurusamy Nadar
		743/2B	Dry	Private	1850	Rev. Father Benedict (1), Dalmia Cement Ltd. (2) Esakkimuthu (3)
		743/3B	Dry	Private	750	Shunmuga Thevar, S/o. Periyasamy Thevar
		743/4B	Dry	Private	1250	Pathrakaliammal, S/o. Veeramani Thevar (1), T. Karungulam Primary Agricultural Co-operative Bank (2)
		744/2	Poramboke	State Government	250	State Government
		745/1E2	Dry	Private	200	Thanuskodi Thevar, S/o. Sivananaintha Perumal Thevar
		745/1F2	Dry	Private	400	Pathrakaliammal, W/o. Veeramani Thevar (1), T. Karungulam Primary Agricultural Co-operative Bank (2)
		745/1G2	Dry	Private	1300	Sivananaintha Perumal Thevar S/o. Arunachala Thevar
		745/1K2	Dry	Private	2000	Lakshmana Thevar, S/o. Esakkimuthu Thevar (1), Palavesa Thevar, S/o. Lakshmana Thevar (2), Alex Joseph Gabriel (3), Santhi Alex (4), Paramasiva Thevar, S/o. Rengasamy Thevar (5)
		745/3	Poramboke	State Government	1100	State Government
		746/3B	Dry	Private	1350	Santhi Alex, W/o. Alex Joseph Gabriel
		747/1F1B	Dry	Private	1550	Sankar & Associates, Coimbatore
		747/1F2B	Dry	Private	300	Celin Mark, S/o. Santhi Viagappan
		747/1G2	Dry	Private	250	Celin Mark, S/o. Santhi Viagappan
		751/2	Poramboke	State Government	850	State Government



1	2	3	4	5	6	7
		752/2B	Dry	Private	100	Vannia Perumal, S/o. Sudalaimuthu Konar (1), Esakkimuthu, S/o. Subbiah Konar (2), Arumugam, S/o. Subbiah Konar (3), Sudalaimuthu S/o. Subbiah Konar (4) Sudalaimuthu (5), Kaniya Perumal Konar (6) Sornathammal (7)
		752/13B	Dry	Private	600	Neelakanda Konar, S/o. Vanniya Perumal Konar
		752/14B	Dry	Private	500	Siva Subramania Konar, S/o. Vanniya Perumal Konar
		752/15B	Dry	Private	500	Bagavathi Konar, S/o. Vanniya Perumal Konar
		752/16B	Dry	Private	500	Shunmugasundaram, S/o. Vanniya Perumal Konar
		752/17B	Dry	Private	600	Boothalinga Konar, S/o. Vanniya Perumal Konar
		752/18B	Dry	Private	600	Arumuga Konar, S/o. Vanniya Perumal Konar
		752/19B	Dry	Private	700	Sudalaikannu Konar, S/o. Vanniya Perumal Konar
		753/5B	Dry	Private	500	Sankarammal, D/o. Ramiah Konar (1), Bagavathi Konar, S/o. Ramiah Konar (2) Masana Konar (3)
		753/8B	Dry	Private	50	Ramakrishnan, S/o. Ganapathy Konar
		753/9B	Dry	Private	600	Nagarajan, S/o. Ganapathy Konar
		753/10	Dry	Private	100	Nagarajan, S/o. Ganapathy Konar
		754/2F2	Dry	Private	100	Sankarammal, D/o. Ramiah Konar (1), Bagavathi Konar, S/o. Ramiah Konar (2) Masana Konar (3)
		754/2G2	Dry	Private	50	(1)Ganapathy Konar, S/o. Bagavathi Konar, (2) Sankarammal, D/o. Ramiah Konar
		754/2H2	Dry	Private	400	Paramarthalinga Konar, S/o. Nalla Kannu Konar
		754/2I2	Dry	Private	500	(1)Shunmugasundaram, S/o. Subbiah Konar, (2) Neelakandan, S/o. Subbiah Konar
		754/2J2	Dry	Private	550	Arumuga Konar, S/o. Nallakkan Konar
		754/2L2	Dry	Private	700	(1)Shunmugasundaram, S/o. Subbiah Konar, (2) Neelakandan, S/o. Subbiah Konar

1	2	3	4	5	6	7
		755/1A1B	Dry	Private	100	Nambikkai Foundation, Palavoor
		755/1A2B	Dry	Private	750	Shunmuganathan, S/o. Chokkalinga Konar
		755/6	Dry	Private	500	Bagavathi Konar, S/o. Chokkalinga Konar
		755/1A3B	Dry	Private	400	Yesurethinam, S/o. Thiraviam
		755/2C2B	Dry	Private	1650	Dr. Selvaraj, S/o. Ponnusamy (1), Selvam Chicken Pvt. Ltd. (2) P.S.P. Forms Private Ltd., Namakkal (3)
		755/3C2	Dry	Private	500	Subbiah Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar (1) Subbiah (2) Ashok Kumar (3) Mani (4) Chandran (5)
		755/4C2	Dry	Private	200	Subbiah Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar (1) Subbiah (2) Ashok Kumar (3) Mani (4) Chandran (5)
		755/5B	Dry	Private	100	Subbiah Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar (1) Esakkimuthu, S/o. Sudalaimuthu Konar (2) Rajagopal, S/o. Sudalaimuthu Konar (3) Ganapathy, S/o. Sudalaimuthu Konar (4) Ganesh Kumari, D/o. Rajagopal (5) Perumal (6) Shunmugam Nithyanantham (7) Subbiah Konar (8) Ashok Kumar (9) Mani (10) Chandran (11)
		877/7	Poramboke	State Government	727	State Government
		877/8	Poramboke	State Government	18	State Government
		878/23	Poramboke	State Government	160	State Government

[F. No. NHA1/Tech/LA/MK/1/2003]

PRABHAKAR, Dy. Secy.